Jaykay Enterprises Limited



JKEL/CS/BSE/AGM-2021/

Date: September 06, 2021

Through: Online Filing

The Bombay Stock Exchange Ltd. Corporate Relationship Department Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street,Fort, Mumbai-400 001

SCRIP CODE: 500306

Fax No. 022 – 22722041, 22722039, 22723132

Sub: A public notice by way of News Paper Advertisement -Post Despatch of the Notices of 75th Annual General Meeting to be held on September 28, 2021

Dear Sir(s),

Pursuant to the Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 we are enclosing a copy of the Newspaper excerpts of the advertisement published on September 06, 2021 on the subject matter in following Newspapers: -

- 1. **THE FINANCIAL EXPRESS (English) Editions**: Ahmedabad, Bengaluru, Chandigarh, Chennai, Hyderabad, Kochi, Kolkata, Lucknow, Mumbai, New Delhi & Pune;
- 2. JANSATTA (Hindi) Editions: Chandigarh, Kolkata, Lucknow/Kanpur & New Delhi

Kindly take the same on your records and acknowledge receipt.

Thanking you,

Yours sincerely,

For Jaykay Enterprises Ltd Prabhat Kumar Mishra

CFO & Company Secretary

M. No. ACS29900 Encls: As Above





FINANCIAL EXPRESS

Taliban, opposition fight for holdout province

Top US general warns of civil war if Taliban fails to consolidate power

REUTERS September 5

TALIBAN AND OPPOSITION forces battled on Saturday to control the Panjshir Valley north of Kabul, the last Afghan province holding out against the militant group, as the top US general warned of a "civil war" if the Islamists failed to consolidate power.

Both sides claimed to have the upper hand in Panjshir, but neither could produce conclusive evidence. The Taliban, which swept through the country ahead of the final withdrawal of US-led forces this week, were unable to control the valley when they ruled Afghanistan from 1996 to 2001.

Taliban spokesman Bilal Karimi said the districts of Khinj and Unabah had been taken, giving Taliban forces control of four of the province's seven districts. "The Mujahideen (Taliban fighters) are advancing toward the centre (of the province)," he said on Twitter.

But the National Resistance Front of Afghanistan, grouping forces loyal to local leader Ahmad Massoud, said it surrounded "thousands of terrorists" in Khawak pass and the Taliban had abandoned vehicles and equipment in the Dashte Rewak

ISABEL DEBRE

Dubai, September 5

gent residency rules for for-

eigners, as it seeks to over-

haul its finances and attract

decades reflects an emerging

contrast with the other

sheikhdoms of the Persian

Gulf that are growing in-

creasingly protectionist as

they try to diversify their oil-

niversary, the UAE is seeking

to accelerate its economic

and social reforms to rebrand

for a post-pandemic future.

Portraying the country as a

liberal, bustling trade and fi-

nance hub, the government

promised to pour \$13.6 bil-

lion into the economy in the

next year and \$150 billion by

to be announced, but \$1.36

billion has been earmarked

for the Emirates Develop-

ment Bank to support the in-

50 years' economy," Abdulla

bin Touq, the economy minis-

ter, said in an interview,

adding that free trade and

openness have long made

"We are building the new

dustrial sector.

Specific projects have yet

2030.

Now marking its 50th an-

bound economies.

visitors and investment.



Taliban members pat down workers leaving the military airfield in Kabul on Sunday REUTERS

area. Front spokesman Fahim Speaking to Fox News Dashti added "heavy clashes" from Ramstein Air Base in were going on. In a Facebook Germany, Milley said if they post, Massoud insisted Pancannot that will "lead to a reishir "continues to stand constitution of Al Qaeda or a strongly". Praising "our hongrowth of ISIS or other myrourable sisters", he said iad terrorist groups" over the demonstrations by women in next three years. the western city of Herat call-

Emergency, an Italian medical aid organisation, said Taliban forces had pushed further into the Panjshir Valley on Friday night, reaching the village of Anabah where the group has medical facilities. "We have received a small number of wounded people at the Anabah Surgical Centre," Emergency said in a statement. adding that many people fled in recent days.

It was not immediately

US lawmaker urges Blinken to clear pvt flights for evacuation

REUTERS Washington, September 5

possible to get further inde-

pendent confirmation of

events in Panjshir, which is

walled off by mountains ex-

sounded in Kabul on Friday as

reports spread of the Taliban's

takeover of Panjshir. News

agencies said at least 17 peo-

tenant General Faiz Hameed

flew into Kabul on Saturday.

It was not clear what his

agenda was, but a senior offi-

cial in Pakistan said earlier in

the week that Hameed, who

heads ISI, could help the Tal-

iban reorganise the Afghan

Pakistan and the ISI of back-

ing the Taliban in its fight

against Afghan government,

although Islamabad has de-

Washington has accused

military.

nied this.

Pakistan's spy chief Lieu-

ple were killed and 41 hurt.

Celebratory gunfire re-

cept for a narrow entrance.

US REPRESENTATIVE MIKE Waltz has called on the State Department to work with nongovernmental organisations that he said are trying to clear charter flights to evacuate Americans and at-risk allies still hiding in Afghan cities.

In a letter to Secretary of State Antony Blinken on Saturday, the Republican lawmaker and former White House official said he had been told by several NGOs that there were manifested charter flights "available, funded, and ready to fly" people out. Groups of American citizens, legal permanent residents, and Afghans eligible for special visas were hiding near airports waiting for clearance to depart the country, Waltz, a decorated veteran, said.

INDRAPRASTHA GAS LIMITED

Regd. Office: IGL Bhawan, 4, Community Centre, Sector-9, R. K. Puram, New Delhi-110 022
Phone: 46074607, Fax: 26171863, Email: investors@igl.co.in,
Website: www.iglonline.net, CIN: L23201DL1998PLC097614

NOTICE

Notice is hereby given that 22[™] Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Tuesday, 28th September, 2021, at 11:30 AM (IST). through VC / OAVM facility provided by Kfin Technologies Pvt. Limited ('KFIN'), Registrar and Transfer Agent of the Company. The Company has completed dispatch of Notice of the AGM & Annual Report for the FY 2020-21 and the same are available on the website of the Company i.e. www.iglonline.net.

Notice is also given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and the applicable Rules thereunder, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, September 18, 2021 to Tuesday, September 28, 2021 (both days inclusive) for the purpose of payment of dividend, if declared at the ensuing AGM

It is hereby informed that in accordance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, and the provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide e-voting (remote e-voting) facility to its Members to exercise the right to vote through electronic voting platform of Kfin Technologies Pvt. Ltd ("Kfin").

The cut-off date (i.e. the record date) for the purpose of remote e-voting or poll is September 21, 2021. A person, whose name is recorded in the register of Members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date, i.e. September 21, 2021, shall be entitled to avail the

A person who has acquired shares and become a Member of the Company after the dispatch of Notice of the AGM and holding shares as on cut-off date, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@kfintech.com by mentioning folio no./DP ID and Client ID no. However, if the person is already registered with Kfintech for remote e-voting then the existing user ID and password can be used for casting vote

The remote e-voting period will commence at 9.00 A.M. on September 25, 2021 and will end at 5.00 P.M. on September 27, 2021. The e-voting module shall be

The Company shall also provide facility for voting at the Meeting and Members attending the meeting who have not already casted their vote by remote e-voting

shall be able to exercise their right to vote at the AGM

The Members who have casted their vote by remote e-voting prior to the meeting

may also attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again. In case of grievances connected to the remote e-voting, please contact Mr. Raj kumar Kale, (Unit: Indraprastha Gas Limited) of Kfin Technologies Private Limited, Kfintech Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial

District, Nanakramguda, Hyderabad - 500032 or at evoting@kfintech.com or call Kfintech's toll free No. 1800-309-4001 for any further clarifications. The results of voting would be declared as stipulated under the relevant Rules and will also be posted on the above mentioned Company's website and website of

Kfin. In case of queries with regard to e-voting, please refer to the Frequently Asked Questions ("FAQs") for shareholders and e-voting User Manual available at the download section of https://evoting.KFintech.com or contact Kfintech at toll free no. 1800-309-4001 for any further clarification.

Date: 05.09.2021 Place: New Delhi

MAX Healthcare

Dear Member(s),

S. K. Jain (Company Secretary)



ing for their rights showed

Afghans had not given up de-

mands for justice and "they

chairman of the Joint Chiefs

of Staff, underscored the ten-

uous situation. "My military

estimate is, is that the condi-

tions are likely to develop of a

civil war. I don't know if the

Taliban is going to be able to

consolidate power and estab-

lish governance," Milley said.

UAE rolls out plan to invest

in economy, liberalise laws

US General Mark Milley,

fear no threats".

economic programmes for the UAE in Dubai on Sunday AP UAE a major global entrepot. "Anyone who is trying to be more conservative and trying to close their markets, the

value is going to be only in the short term, but in the long term, they're harming their economies." Friction has grown between the UAE and its heavyweight neighbour Saudi Ara-

bia, which has taken a different

strategy under the young and

brash Crown Prince Mo-

hammed bin Salman. Buried within the raft of the UAE's flashy economic development initiatives on Sunday was a far more practical and drastic — change to the country's visa system that governs the legions of foreign workers from Africa, West ASia and elsewhere who power the

country's economy. Since the UAE's independence, the state has tied em-

ployment to residency status, lending employers outsized power and forcing people to immediately leave the country once they lost their jobs.

"We want to rebuild the whole system ... so that the residency system is attracting people and making sure they feel the UAE is home for them," bin Touq said. "Openness is something which we're proud of."

The new plans give residents an additional three months to seek other jobs after being fired, allow parents to sponsor their children's visas until the age of 25, and ease visa restrictions on freelancers, widows and divorced people, among other things. It's a subtle shift from the Gulf Arab state's traditional way of treating its vast foreign labour force as an expendable underclass. — AP

Govt to extend incentive scheme

A presenter walks off stage at an event announcing new

PRESS TRUST OF INDIA New Delhi, September 5

THE GOVERNMENT IS likely to extend an incentive scheme for leather and footwear industries, IFLADP, till 2025-26 with an outlay of ₹1,700 crore, to further boost manufacturing, exports and job creation, an official said.

The commerce and industry ministry has submitted a proposal for the implementation of the Indian Footwear Leather and Accessories Development Programme (IFLADP) with an outlay of ₹1,700 crore, to be incurred during 2021-22 to 2025-26, the official said.

The Union Cabinet might approve it soon, the

official added.

The programme has six components — Sustainable Technology and Environmental Promotion (proposed outlay ₹500 crore); Integrated Development of Leather Sector (proposed outlay ₹500 crore); Establishment of Institutional Facilities (₹200 crore); Mega Leather Footwear and Accessories Cluster Development (₹300 crore); Brand Promotion of Indian Brands in Leather and Footwear Sector (₹100 crore); and Development of Design

The expenditure finance committee, under the finance ministry, has already approved the commerce ministry's pro-

Studios (₹100 crore).

posal, the official added.

nology and Environmental Promotion' component, assistance could be provided for setting up a common effluent treatment plant; and support could be extended for modernisation/capacity expansion/technology up-gradation under the 'Integrated Development of Leather Sector'component.

Similarly, under the 'Establishment of Institutional Facilities' component, support could be provided for the setting up of new infrastructure and up-gradation of requisite infra of the existing campuses of Footwear Design and Development Institute (FDDI).

for leather, footwear industry

Under the 'Sustainable Tech-

Max Healthcare Institute Limited CIN: L72200MH2001PLC322854 Registered Office: 401, 4th Floor, Man Excellenza, S. V. Road, Vile Parle (West), Mumbai, Maharashtra-400056 Email: investors@maxhealthcare.com

Website: www.maxhealthcare.in INFORMATION REGARDING 20™ ANNUAL GENERAL MEETING ('AGM") OF THE COMPANY

Notice is hereby given that the 20" AGM of the Company will be convened on Wednesday, September 29, 2021 at 12:00 noon (IST) through Video Conferencing/Other Audio Video Means (VC/ OAVM) facility in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act"), Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, read with General Circular Nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020 and 02/2021 dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020 and January 13, 2021 respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 issued by the

Securities and Exchange Board of India (collectively referred to as Circulars),

without the physical presence of the Members at a common venue.

In pursuance to aforesaid circulars and go green initiative, the Company will only be sending the Annual Report including the Financial Statements for the Financial Year 2020-21 ("Annual Report") and Notice of 20" AGM electronically to those members who have registered their email IDs with the Company or Depository Participants ("DP") or the Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA). Members may note that the Notice of AGM along with the Annual Report will also be available on Company's website https://www.maxhealthcare.in/investors/corporate-governance, website of the stock exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and Company's RTA Link Intime India Private Limited ("Link Intime") website www.linkintime.co.in. The login credentials for remote e-voting / e-voting during the AGM will be sent along with the AGM Notice and Annual Report. However, Members who have not registered their email-id can follow the procedure for registering e-mail id as

The details and instructions to attend, vote and view the proceedings of the AGM will be provided in the AGM Notice. The Company has facilitated the Members to participate at the 20" AGM through the VC /OVAM facility provided by Link Intime. Members participating through the VC/OAVM facility shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act. Pursuant to Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies

Members can attend and participate in the AGM through VC/ OVAM facility only

(Management & Administration) Rules, 2014, Regulation 44 of the Listing Regulations and Secretarial Standard on General Meetings, the Company is providing a facility of voting through electronic means i.e. remote e-voting and e-voting at the AGM to be held through VC/OAVM, to vote on the businesses set Members whose email id are not registered with the Company/ RTA / DP can

update their email id and PAN details by following procedure: In case of Physical holding: Members are requested to directly register their

email id, PAN by visiting the link of the Company's RTA https://linkintime.co.in, emailreg/email_register.html or can send a letter duly signed by shareholders(s) mentioning his folio number, email id along with self-attested copy of pan card and cancelled cheque to Company's RTA or to the undersigned. Shareholders holding shares in dematerialized mode may contact/ write to their

Depository Participant to register/update their e-mail address. The above information is being issued for the information and benefit of all the members of the Company and is in compliance with the Circulars

By order of the Board Max Healthcare Institute Limited

Place: New Delhi Date: September 06, 2021

Ruchi Mahajan Senior Vice President -Company Secretary & Compliance Officer

J.K. Cotton Limited

CIN:U17111UP1924PLC000275 Registered Office: Kamla Tower, Kanpur 208 001, U.P., India Telephone: +91 512 2371478 - 81, Fax: +91 512 2332665 Email: harshit@jkcotton.com Website: www.jkcotton.com

NOTICE OF THE 98th ANNUAL GENERAL MEETING AND INFORMATION ABOUT E-VOTING

Notice is hereby given that the 98th Annual General Meeting ('AGM') of the Company will be held through Video Conference ('VC') / Other Audio Visual Means ('OAVM'), without physical presence of the Members at a common venue on Tuesday, September 28, 2021 at 11.00 AM to transact the business as set out in the Notice convening AGM, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with the applicable rules made there under and the Circular dated April 8, 2020 and April 13, 2020, May 5,2020 and January 13,2021 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") (collectively referred to as 'the Circulars') to transact the businesses set out in the Notice convening the AGM.

In compliance with the aforementioned MCA Circulars, electronic copies of the Notice convening the AGM along with the Annual Report for the financial year 2020-21 containing Directors' Report and annexures thereof, Annual Financial Statements and Independent Auditors Report thereon, etc. to the Members of the Company has already been sent within prescribed timelines by e-mail to all the Members whose e-mail addresses are registered with the Depository Participant ('DP') or the Company / Jaykay Enterprises Ltd. (RTA). The aforesaid documents are also available on the Company's Website at www.jkcotton.com and on the Website of Central Depository Services (India) Ltd (CDSL) at www.evotingindia.com.

The Company would be providing remote e-voting facility to its members pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("Rules"), as amended, the facility to attend and participate in the AGM through VC / OAVM and the facility of voting through e-voting system during the AGM to all its Members (holding shares, either in physical or dematerialized form, as on Tuesday, September 21, 2021 (Cut-off date). Any person who is not a Member on the cut-off date should accordingly treat the Notice of AGM as for information purposes only. The voting rights of the Members shall be in proportion to their share of the paid-up equity share capital of the Company as on Cut-off date. The Company has engaged the services of CDSL for providing these facilities to the Members.

The remote e-voting period commences on Saturday, September 25, 2021 at 9.00 AM and ends on Monday, September 27, 2021 at 5.00 PM. The remote -voting shall not be allowed beyond the said date and time. The Company has appointed M/s Banthia & Co. (Prop. Mr. G. K. Banthia) (CP No. 1405), Practicing Company Secretaries, as Scrutinizer to scrutinize the remote re-voting process/e-voting during the AGM in a fair and transparent manner

The e-voting instructions including unique number for first time e-voting user (other than individual shareholder), and instructions for joining the AGM through VC / OAVM facility are provided in the Notice of the AGM. Attendance of the Members attending the AGM through VC / OAVM will be counted for the purpose of reckoning quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. The login credentials and procedure for remote e-voting and e-voting during the AGM have already been sent on the registered e-mail address. Please note that same login credentials are required for participating in the AGM through VC/OAVM and e-voting on resolutions during the AGM.

The Members whose e-mail addresses are not registered with the DPs or the Company / RTA, are requested to register their e-mail addresses, for obtaining login credentials, by following the instructions below:

- For Physical shareholders- please provide necessary details like Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by email to Company/RTA email id at harshit@jkcotton.com or investorservices@jaykayenterprises.com respectively.
- For Demat shareholders Please update your email id & mobile no. with your respective Depository Participant (DP) which is mandatory while e-Voting & joining virtual meetings through VC/OAVM.

The facility for E-voting during AGM shall be made available to those Members who have not cast their vote by remote e-Voting and are attending the AGM through VC/OAVM. The Members who have already cast their vote by remote e-voting prior to the AGM, may also attend the AGM, but shall not be entitled to vote again during the AGM. In case of any queries/grievances relating to voting by electronic means, the Members/Beneficial owners may refer to the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com.

By Order of the Board HARSHIT GUNANI

Place: Kanpur Date: September 4, 2021

COMPANY SECRETARY

Jaykay Enterprises Limited

(CIN: L99999UP1961PLC001187) Read. Office: Kamla Tower, Kanpur - 208 001 (India)

providing these facilities to the Members.

Ph. No. 91 512 2371478-81 Fax: 91 512 2332665 E-Mail: prabhat.mishra@jaykayenterprises.com; Website: www.jaykayenterprises.com

NOTICE OF THE 75th ANNUAL GENERAL MEETING, INFORMATION ABOUT E- VOTING

NOTICE is hereby given that the 75th ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) of the Members of the Company will

be held through Video Conference ('VC') / Other Audio Visual Means ('OAVM'), without physical presence of the Members at a common venue on Tuesday, September 28, 2021 at 12.00 Noon to transact the business as set out in the Notice convening AGM, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with the applicable rules made there under and the circular dated April 8, 2020 and April 13, 2020, May 5,2020 and January 13,2021 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA) and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR /P/2020/79 dated May 12, 2020 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 issued by the Securities and Exchange Board of India (collectively referred to as 'the Circulars') and in compliance with the provisions of the Act and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") to transact the businesses set out in the Notice convening the AGM.

In compliance with the aforementioned MCA Circulars, electronic copies of the Notice convening the AGM along with the Annual Report for the financial year 2020-21 containing Directors' Report and annexures thereof, Corporate Governance Report, Annual Financial Statements and Independent Auditors Report thereon, etc. to the Members of the Company has already been sent within prescribed timelines by e-mail to all the Members whose e-mail addresses are registered with the Depository Participant ('DP') or the Company. The aforesaid documents are also available on the Company's Website at www.jaykayenterprises.com and on the Website of Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) at www.evotingindia.com

The Company would be providing remote e-voting facility to its members pursuant to the provisions of Section

108 of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("Rules"), as amended, and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('Listing Regulations') the facility to attend and participate in the AGM through VC / OAVM and the facility of voting through e-voting system during the AGM to all its Members (holding shares, either in physical or dematerialized form, as on Tuesday, September 21, 2021 (Cut-off date) Any person who is not a Member on the cut-off date should accordingly treat the Notice of AGM as for information purposes only. The voting rights of the Members shall be in proportion to their share of the paid-up

The remote e-voting period commences on Saturday, September 25, 2021 at 9.00 AM and ends on Monday, September 27, 2021 at 5.00 PM. The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time. The Company has appointed Ms. Reena Jakhodia (CP No. 6083), Practicing Company Secretary, as Scrutinizer to scrutinize the e-voting process in fair and transparent manner.

equity share capital of the Company as on Cut-off date. The Company has engaged the services of CDSL for

The e-voting instructions including unique number for first time e-voting user (other than individual shareholder), Instructions for joining the AGM through VC / OAVM facility are provided in the Notice of the AGM and attendance of the Members attending the AGM through VC / OAVM will be counted for the purpose of reckoning quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. The login credentials and procedure for remote e-voting and e-voting during the AGM have already been sent on the registered e-mail address. Please note that same login credentials are required for participating in the AGM through VC/OAVM and e-voting on resolutions during the AGM.

The Members whose e-mail addresses are not registered with the DPs or the Company, are requested to register their e-mail addresses, for obtaining log-in credentials, by following the instructions below:

For Physical shareholders- Please provide necessary details like Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the Share Certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by email to the Company's email id at prabhat.mishra@jaykayenterprises.com or investorservices@jkcement.com.

For Demat shareholders- Please update your email id & mobile no. with your respective Depository Participant (DP) which is mandatory while e-Voting& joining virtual meetings through VC/OAVM.

The facility for E-voting during AGM shall be made available to those Members who have not cast their vote by remote e-voting and are attending the AGM through VC/OAVM. The Members who have already cast their vote by remote e-voting prior to the AGM, may also attend the AGM, but shall not be entitled to vote again during the AGM. In case of any queries/grievances relating to voting by electronic means, the Members/Beneficial owners may refer to the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.comunder help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com.

By Order of the Board

(Prabhat Kumar Mishra)



CFO & Company Secretary Membership No. ACS-29900

financialexp.epap.in

'चिकित्सकों की पहली पदोन्नति के लिए ग्रामीण सेवा अनिवार्य

हैदराबाद, 5 सितंबर (भाषा)।

उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने रविवार को कहा कि सरकारी क्षेत्र में कार्यरत डॉक्टरों को पहली पदोन्नति के लिए ग्रामीण इलाके में उनकी सेवा को अनिवार्य बनाना चाहिए।

आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक यहां आयोजित 11वें वार्षिक चिकित्सा शिक्षक दिवस पुरस्कार सम्मान में उप राष्ट्रपति ने कहा कि युवा डॉक्टरों के लिए तीन से पांच साल ग्रामीण इलाकों में सेवा देना जरूरी है। उन्होंने रेखांकित किया कि देश की 60 फीसद आबादी गांवों में रहती है। नायडु ने कहा, 'यह (ग्रामीण इलाकों में सेवा) अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। मैं जानता हुं कि कई लोग इसे पसंद नहीं करेंगे, लेकिन मेरा मानना है कि यह जरूरत है।' उपराष्ट्रपति ने सरकार द्वारा देश में डॉक्टर-मरीज अनुपात के अंतर को पाटने के लिए उठाए जाने वाले कदमों का संदर्भ देते हुए जोर दिया कि चिकित्सा महाविद्यालयों की संख्या बढाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर-मरीजों का अनुपात एक डॉक्टर पर 1456 मरीजों का है जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मानक एक डॉक्टर पर एक हजार मरीज का है। उन्होंने सरकार की प्रत्येक जिले में कम से कम एक चिकित्सा महाविद्यालय



उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने रेखांकित किया कि देश की 60 फीसद आबादी गांवों में रहती है

खोलने की योजना की प्रशंसा की। साथ ही रेखांकित किया कि शहरी-ग्रामीण डॉक्टरों में भारी अंतर है क्योंकि अधिकतर चिकित्सा पेशेवर शहरी इलाकों में प्रैक्टिस करने का विकल्प चुनते हैं। उप राष्ट्रपति ने पूर्व राष्ट्रपति, राजनेता और दार्शनिक दिवंगत सर्वपल्ली राधाकृष्णन को उनकी जयंती पर रविवार को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने अपने सभी शिक्षकों के प्रति भी सम्मान व्यक्त किया जिन्होंने उनके करियर को दिशा दी।

इससे पहले उन्होंने प्रख्यात हृदय रोग विशेषज्ञ और पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉ के श्रीनाथ रेड्डी और डॉ देवी शेट्टी सहित अन्य को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया।

तालाब में नहाने गए पांच बच्चों की डूबने से मौत

जयपुर, ५ सितंबर (भाषा)।

राजस्थान के चित्तौडगढ जिले के मंगलवाड थाना क्षेत्र में रविवार को तालाब में नहाने के दौरान पांच बच्चों की डूबने से मौत हो गई।

बच्चों को बचाने के लिए कुछ ग्रामीण तालाब में कूदे और उन्हें अस्पताल पहुंचाया, लेकिन पांच बच्चों को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हादसे को हृदयविदाकर एवं दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त कीं। गहलोत ने ट्विटर पर कहा, 'चित्तौडगढ के मंगलवाड क्षेत्र में स्थित तालाब में डूबने से पांच बच्चों की मृत्यु बेहद हृदयविदारक एवं दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरी गहरी संवेदनाएं बच्चों के माता-पिता एवं परिजनों के साथ हैं।

ईश्वर उन्हें इस अत्यंत कठिन समय में संबल प्रदान करें।' थानाधिकारी हरेंद्र सौदा ने बताया कि मंगलवाड़ क्षेत्र में रविवार को एक तालाब में आठ से 12 वर्ष की उम्र के छह बच्चे नहाने गए थे। उन्होंने बताया कि नहाने के दौरान अचानक पांव फिसलने से वे गहरे पानी चले गए जिससे पांच बच्चों की डूबने से मौत हो गई जबकि एक बच्चा बाहर आने में सफल हो गया।

उन्होंने बताया कि बच्चों को बचाने के लिए कुछ ग्रामीण तालाब में कूदे और उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन पांच बच्चों को अस्पताल के चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।

सुरक्षा बलों की तैनाती के साथ कश्मीर में प्रतिबंधों में ढील

श्रीनगर, 5 सितंबर (भाषा)।

कट्टरपंथी अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के निधन के बाद रविवार को चौथे दिन कश्मीर में प्रतिबंधों में ढील दी गई लेकिन सुरक्षा बलों की तैनाती अब भी जारी है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

घाटी में लोगों के आवागमन पर कोई रोक नहीं है लेकिन अलगाववादी नेता के लिए शोक के चौथे दिन के मद्देनजर कई इलाकों में सड़कों पर अवरोधक लगे हुए हैं खासकर हैदरपरा में गिलानी के आवास तक जाने वाली सड़कों पर। अधिकारियों ने बताया कि कानून-व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए शहर और अन्य इलाकों में सुरक्षा बलों को बड़ी संख्या में तैनात किया गया है।

उन्होंने बताया कि घाटी में वाहनों का आवागमन बढ़ा है लिकन ज्यादातर सार्वजनिक परिवहन सड़क से नदारद रहा। शहर के कुछ इलाकों और घाटी के अन्य हिस्सों में भी कछ दुकानें खुलीं।

अधिकारियों ने बताया कि स्थिति सामान्य

अधिकारियों ने बताया कि कानून-व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए शहर और अन्य इलाकों में सुरक्षा बलों को बड़ी संख्या में तैनात किया गया है

एवं नियंत्रण में है। पुलिस ने शनिवार को कहा था कि कानून-व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए कई एहतियाती उपाय किए गए जिसमें शरारती तत्वों की गिरफ्तारी शामिल है।

पुलिस ने यह भी कहा कि कश्मीर मीडिया सर्विस सहित कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. जो पाकिस्तान से चल रहे हैं, उपद्रवियों को शांति भंग करने के लिए उकसाने के लिए फर्जी खबरें और वीडियो फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अधिकारियों ने कहा कि कुछ स्थानीय मीडिया के लोग और चैनल भी फर्जी खबर फैलाते दिखे हैं और पुलिस उनपर नजर रख रही है, साक्ष्य एकत्र कर रही है और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।

सोशल मीडिया पर खुद को महिला बता दिल्ली के डॉक्टर से ठगे दो करोड़

यवतमाल, ५ सितंबर (भाषा)।

दिल्ली के एक डॉक्टर से महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर खुद को महिला के तौर पेश करते हए कथित रूप से दो करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी की। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि पीड़ित (44) ने शनिवार को यवतमाल पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जिसके बाद आरोपी कॉलेज छात्र संदेश मानकर को गिरफ्तार कर लिया गया।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने फेसबुक, इंस्टाग्राम और अन्य

सोशल मीडिया मंचों पर महिला के रूप में फर्जी प्रोफाइल (खाता) बना रखा था।

उन्होंने बताया कि डॉक्टर सोशल मीडिया पर खुद को लड़की के रूप में पेश करने वाले इस व्यक्ति के संपर्क में आ गया और आरोपी ने पीडित को बताया. 'वह एक अमीर परिवार से आती है और दुबई में उसका कारोबार है।' पिछले महीने आरोपी बहरूपिए ने पीड़ित से कहा कि उसकी बहन का अपहरण हो गया है और अपहरणकर्ताओं ने दो करोड़ रुपए की फिरौती मांगी है। इसके बाद पीड़ित ने यवतमाल जाकर 12 अगस्त को आरोपी के द्वारा बताए गए व्यक्ति को यह राशि सौंपी।

बाद में आरोपी ने फिर पीडित को कॉल कर

बताया कि 'उसकी' बहन को अपहरणकर्ताओं ने छोड़ दिया है। आरोपी ने इसके बाद फिर से पीडित को एक बैंक खाते में 7,20,000 रुपए जमा करने के लिए कहा और डॉक्टर के राशि जमा कराने के बाद उसने सभी सोशल मीडिया खातों और मोबाइल फोन को बंद कर लिया।

अधिकारी ने बताया कि ठगी का एहसास होने पर पीड़ित ने शनिवार को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद यवतमाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से 1.97 करोड़ रुपए की राशि बरामद की। पुलिस यह पता लगा रही है कि आरोपी पहले भी इस तरह के अपराध में शामिल रहा

छत्तीसगढ़ में बस नदी में गिरी, 32 लोग घायल

सूरजपुर (छत्तीसगढ़), 5 सितंबर (भाषा)।

साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) के कम से कम 32 कर्मचारी रविवार को उस समय घायल हो गए, जब उनकी बस राज्य के सूरजपुर जिले में एक नदी में गिर गई। पुलिस ने बताया कि एसईसीएल के कुल 43 कर्मी बस में सवार होकर कंपनी के भटगांव मुख्यालय से महान कोल माइंस जा रहे थे। जब बस सुखदेवपुर गांव के पास एक पुल पर पहुंची तो चालक ने स्टीयरिंग से नियंत्रण खो दिया और बस पुल की सीमेंट की रेलिंग को तोड़ते हुए नदी में जा गिरी। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि बस में सवार सभी लोगों को भटगांव के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से 32 लोगों को अंबिकापुर के एक निजी अस्पताल में भेजा गया।

कांग्रेस ने किसान महापंचायत का किया समर्थन

नई दिल्ली, 5 सितंबर (भाषा)।

कांग्रेस ने रविवार को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 'किसान महापंचायत' के समर्थन में आवाज उठाई और पार्टी नेता राहुल गांधी ने कहा, 'गूंज रही है सत्य की पुकार तुम्हें सुनना होगा, अन्यायी सरकार।'

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाडा ने कहा कि 'किसानों की हुंकार के सामने किसी भी सत्ता का अहंकार नहीं चलता।' उत्तर प्रदेश और पड़ोसी राज्यों के हजारों किसान रविवार को मुजफ्फरनगर में 'किसान महापंचायत' के लिए एकत्रित हुए, जिसका उद्देशच उनके अनुसार 'देश को बचाना' है। इस महापंचायत का आयोजन उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण विधानसभा चुनावों से

कुछ महीने पहले किया गया। कार्यक्रम संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) द्वारा मुजफ्फरनगर के सरकारी इंटर कॉलेज मैदान में केंद्र के कृषि कानूनों के विरोध में आयोजित किया गया। राहुल गांधी ने हिंदी में ट्वीट किया, 'गूंज रही है सत्य की पुकार तुम्हें सुनना होगा, अन्यायी सरकार।' प्रियंका गांधी ने भी महापंचायत के समर्थन में आवाज उठाते हुए कहा, 'किसान इस देश की आवाज हैं। किसान देश का गौरव हैं। किसानों की हुंकार के सामने किसी भी सत्ता का अहंकार नहीं चलता। खेती-किसानी को बचाने और अपनी मेहनत का हक मांगने की लडाई में पुरा देश किसानों के साथ है।' कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि 'किसान का खेत-खलिहान चुराने वाले देशद्रोही हैं।'

कांग्रेस पहले आती है गुटबाजी बाद में : ओमन चांडी

तिरुवनंतपुरम, 5 सितंबर (भाषा)।

केरल कांग्रेस में गुटबाजी की संस्कृति को खत्म करने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नए नेतृत्व द्वारा कदम उठाए जाने के बीच पार्टी के वरिष्ठ नेता ओमन चांडी ने रविवार को स्पष्ट किया कि यह प्रथा एक वास्तविकता है. लेकिन पार्टी पहले आती है।

यह पूछे जाने पर कि क्या पार्टी में इस तरह की संस्कृति खत्म हो रही है, उन्होंने संवाददाताओं से कहा, 'कांग्रेस को आगे बढना चाहिए। कांग्रेस पहले. गट उसके बाद आता है।' चांडी ने अपना रुख ऐसे समय स्पष्ट किया है जब राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता वीडी सतीशन ने गृटों के नेताओं चांडी और रमेश चेन्नीथला के साथ मतभेदों को दूर करने के लिए नए नेतृत्व के प्रयास के तहत कोट्रायम में उनके आवास

पर उनसे मुलाकात की। चांडी का यह बयान काग्रस महासचिव केसी वेणुगोपाल द्वारा कन्नूर में यह कहे जाने के कछ दिनों बाद आया है कि कांग्रेस 'उनका समह है।' चांडी का बयान ऐसे में भी महत्वपूर्ण है कि ऐसे कई नेता जो 'ए' और 'आइ' गृटों का हिस्सा थे, उन्हें छोड़कर नए नेतृत्व के पीछे एकजुट हो गए हैं। 'ए' गुट का नेतृत्व चांडी और 'आइ' गुट का नेतृत्व चेन्नीथला द्वारा किया जाता है।

देवास (मप्र), 5 सितंबर (भाषा)।

मध्य प्रदेश के देवास जिले में एक नाबालिंग लड़की के साथ 19 वर्षीय एक लड़के द्वारा फोटो-वीडियो शेयरिंग साइट इंस्टाग्राम पर दोस्ती करने के कुछ दिनों

बाद कथित तौर पर बलात्कार करने का मामला सामने आया है। उसे रविवार को गिरफ्तार कर लिया है। औद्योगिक क्षेत्र थाना प्रभारी अनिल शर्मा ने रविवार को बताया कि इस लड़की की दोस्ती इंस्टाग्राम पर अपने ही इलाके के मुस्तफा मंसूरी से हाल ही में हुई थी।

CyberMedia CYBER MEDIA (INDIA) LIMITED

CIN: L92114DL1982PLC014334 Registered office: D-74, Panchsheel Enclave, New Delhi-110017, Tel.: 011-26491320 Corporate office: Cyber House, B-35, Sector-32, Gurugram-122001. Tel.: 0124-4822222 Email: investorcare@cybermedia.co.in, Website: www.cybermedia.co.in

> NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING. **BOOK CLOSURE DATES AND E-VOTING**

Notice is hereby given that the 39th Annual General Meeting ("AGM") of the Company is scheduled to be held on Thursday, the 30th day of September, 2021 at 09:30 a.m. (IST) through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") in accordance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ('the Act') Circular(s) issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and Securities and Exchange Board of India ('SEBI') to transact the businesses as stated in the AGM Notice dated August 28, 2021.

In view of the continued Covid-19 pandemic, MCA has vide its circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 read with circular Nos. 14/2020, 17/2020 and 20/2020 dated April 8, 2020, April 13, 2020 and May 5, 2020, respectively (collectively referred to as "MCA Circulars*) and SEBI vide its circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 and circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 (collectively referred to as "SEBI Circulars") permitted the holding of the Annual General Meeting ("AGM") through VC / OAVM, without the physical presence of the Members at a common venue. In compliance of MCA Circulars and the relevant provisions of the Companies Act, 2013 alongwith SEBI Circulars and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations"), the AGM of the Members of the Company is being be held through VC/OAVM

In compliance with the Act, the Rules made thereunder and the above Circulars copies of the Notice of AGM and Annual Report for the financial year 2020-21 have been sent to all Members of the Company to their email addresses whose email ids are registered with the Company/Depository Participants/Registrar and Transfer Agent (RTA). The electronic dispatch of the Notice and Annual Report has been completed on September 04, 2021. The Annual Report alongwith Notice of AGM is also available on Company's website; www.cybermedia.co.in, website of stock exchanges, BSE Limited ('BSE') and National Stock Exchange of India Limited ('NSE') at www.bseindia.com and www.nseindia.com and the website of Link Intime India Private Limited ('LIIPL'), www.instavote.linkintime.co.in.

Instructions for remote e-voting

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, Regulation 44 of the Listing Regulations and Secretarial Standard on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India, the Company is providing to its members, the facility to cast their votes electronically on the businesses as set out in the Notice of AGM, proposed to be transacted at the AGM to be held on September 30, 2021. All the Members are hereby informed that the Ordinary and Special Business as set out in the Notice of 39th AGM shall be transacted through electronic means only. The details of remote e-voting are as under:

- The remote e-voting shall commence at 9:00 a.m. (IST) on Monday, September 27, 2021 and ends at 5:00 p.m. (IST) on Wednesday, September 29, 2021 at 5:00 p.m. (IST). The remote e-voting module shall be disabled by LIIPL for voting thereafter. The members who have not cast their vote through remote e-voting shall be eligible
- to cast their vote through e-voting during AGM. The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM shall be eligible to attend the AGM, however they shall not be entitled to cast their vote
- Member who acquired shares after sending the Annual Report through electronic means and before the cut-off date (i.e. September 23, 2021) may obtain the User ID and Password by sending at email id: insta.vote@linkintime.co.in. However, if the person is already registered with LIPL for remote e-voting, then the existing user id and password can be used for casting the vote.
- The detailed procedure for obtaining user id and password and the instructions on the manner in which the e-voting is to be cast, is also provided in the Notice of AGM. Members may contact for any query or inconvenience or grievances, if any, in voting through electronic mode at the help line of LIIPL at 022-49186000 or email at enotices@linkintime.co.in or insta.vote@linkintime.co.in

Notice is also given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder, as amended from time to time, and Regulation 42 of the SEBI Listing Regulations, the Register of Members and Share Transfer Books will remain closed from Friday, 24th September, 2021 to Thursday, 30th September, 2021 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

A facility to attend the AGM through VC/OAVM is available through the LIPL e-voting system at https://instameet.linkintime.co.in. Detailed procedure to attend AGM through VC is given in the Notice of 39th AGM. For Cyber Media (India) Limited

Anoop Singh

Company Secretary

जे. के. कॉटन लिमिटेड

सी. आई एन : U17111UP1924PLC000275 पंजीकृत कार्यालयः कमला टावर, कानपुर – 208 001, उ.प्र. (इडिंया) फोन :+91 512 2371478 - 81, फैक्स:+91 512 2332665 ईमेल : harshit@jkcotton.com वेबसाइट: www.jkcotton.com

98वीं वार्षिक आमसभा की नोटिस व ई-वोटिंग की जानकारी

एतदद्वारा यह सुचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के साथ पठित उसके अंतर्गत बने नियमों व कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) द्वारा जारी दिनांक 8 अप्रैल, 2020, दिनांक 13 अप्रैल, 2020, दिनांक 5 मई, 2020 और दिनांक 13 जनवरी, 2021 के परिपत्र ('परिपत्रों') के अनुपालन में कंपनी की 98वीं वार्षिक आम सभा (AGM) एक स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('VC') / अन्य ऑडीओ विज्अल मीन्स ('OAVM') के माध्यम से दिनांक 28 सितंबर, 2021 दिन मंगलवार को पूर्वान्ह 11.00 बजे आयोजित की जायेगी जिसम AGM के नोटिस में बताये जाने वाले कारोबार को पारित किया जायेगा

उपरोक्त MCA के परिपत्रों के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2020—21 की वार्षिक रिपोर्ट जिसमे नोटिस डायरेक्टर रिपोर्ट परिशिष्टियों सहित, वार्षिक वित्तीय विवरण व स्वतंत्र ऑडिटर्स रिपोर्ट शामिल है के साथ AGM के नोटिस की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी कंपनी के उन सदस्यों कोई–मेल द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर पहले ही भेजी गयी है, जिनके ई-मेल पते डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ('DP') या कंपनी / Jaykay Enterprises Ltd. (RTA) के पास पंजीकृत हैं। उपरोक्त सभी दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.ikcotton.com और सेन्टल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (CDSL) की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है । कंपनी अपने उन सदस्यों को जो कि दिनांक 21 सितंबर, 2021 दिन मंगलवार (कटऑफ डेट) को फिजिकल या डीमैट फार्म में शेयर धारक है कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम 2014 के नियम 20 के अंतर्गत रिमोट ई-वोटिंग सुविधा, VC/OAVM के माध्यम से AGM मेंउपस्थित होने और भाग लेने की सुविधा और AGM के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान की सुविधा प्रदान करेगी। कोई भी व्यक्ति जो कटऑफ डेट परसदस्य नहीं है उस तदनुसार AGM की सूचना को केवल सूचना के उद्देश्यों के लिये मानना चाहिए। सदस्यों के मतदान का अधिकार कटऑफ डेट को कंपनी की प्रदत्त ईक्विटी शेयरपूँजी में उनके शेयर के अनुपात में होगा। कंपनी ने सदस्यों को ये सविधायें प्रदान करने के लिए CDSL की सेवायें ली हैं।

रिमोट ई-वोटिंग शुक्रवार 25 सितंबर, 2021 को प्रातः 9.00 बजे से प्रारम्भ होकर सोमवार 27 सितंबर, 2021 को सायं 5.00 बजे समाप्त होगी, रिमोट ई-वोटिंग दी गई तारीख व समय के बाद उपलब्ध नहीं होगी। कंपनी ने मेसर्स बंथिया एंड कंपनी (प्रोप्राइटर श्रीजी. के. बंथिया), प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी की नियुक्ति निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई-वोटिंग प्रक्रिया / AGM के दौरान ई-वोटिंग की जांच करने के लिये स्क्रुटिनाइजर के रूप में की है।

पहली बार ई-वोटिंग उपयोगकर्ता (व्यक्तिगत शेयरधारक के अलावा) के लिए युनिक नंबर सहित ई-वोटिंग निर्देश और AGM में शामिल होने के निर्देश AGM के नोटिस में प्रदान किये गये हैं। VC/OAVM के माध्यम से AGM में शामिल होने वाले सदस्यों की उपस्थिति की गणना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम के उद्देश्य से की जायेगी। AGM के दौरान रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल और प्रक्रिया पहले ही पंजीकृत ई-मेल पते पर भेजी जा चुकी है। कृपया ध्यान दें कि AGM मे VC/OAVM के माध्यम से भाग लेने के लिये और AGM के दौरान प्रस्तावों पर ई-वोटिंग के लिये एक ही लॉगिन क्रेडेंशियल की आवश्यकता होतीहै।

जिन सदस्यों के ई-मेल पते DP या कंपनी / RTA के साथ पंजीकृत नहीं हैं, उनसे अनुरोध है कि लॉगिन क्रेडेंशियल प्राप्त करने के लिये वे नीचे दिये गये निर्देशों का पालन करते हुये अपने ई—मेल पते पंजीकृत करायें

1—फिजिकल शेयरधारकों के लिये : कृपया फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर सर्टिफिकेट (आगे और पीछे) की स्कैनकॉपी, पैन (पैन कार्ड की सेल्फ अटेस्टेड स्कैन कॉपी), आधार (आधारकार्ड की सेल्फ अटेस्टेड स्कैन कॉपी) जैसे आवश्यक विवरण कंपनी / RTA को क्रमशः investorservices@jaykayenterprises.com अथवा harshit@jkcotton.com पर ईमेल द्वारा प्रदान करें।

2—डीमैट शेयरधारकों के लिए: कृपया अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के साथ अपडेट करें ई-वोटिंग और VC/OAVM के माध्यम से वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के दौरान यह अनिवार्य है।

AGM दौरान ई-वोटिंग करने की सुविधा उन सदस्यों को उपलब्ध कराई जायेगी जिन्होंने अपना मत रिमोट ई-वोटिंग द्वारा पहले नहीं डाला हो और वह AGM में उपस्थित है, ऐसे सदस्य जिन्होंने AGM से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मत डाल दिया हो, AGM में उपस्थित रह सकते हैं परन्तु AGM में पुनः मतदान करने के हकदार नहीं होंगे। इलेक्ट्रानिक माध्यम द्वारा वोटिंग सम्बंधित जानकारी / असुविधा के लिये सदस्य व बेनेफिशियल ओनर 'सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न ("FAQ") व ई-वोटिंग मैन्युअल www.evotingindia.com के हैल्प सेक्शन में देख सकते है या helpdesk .evoting@cdslindia.com को ई-मेल कर सकते है।

दिनांकः सितंबर 04, 2021

स्थानः कानपुर

बोर्ड की आज्ञानुसार हस्ता/-हर्षित गुनानी कंपनी सचिव

जे.के. इन्टरप्राइजेज लिमिटेड 🛚 🏻 🖺

सोशल मीडिया पर दोस्ती के बाद नाबालिंग से बलात्कार, युवक गिरफ्तार

सीआईएन : L99999UP1961PLC001187

पंजीकृत कार्यालय : कमला टावर, कानपुर-208001, उ.प्र. (इण्डिया) फोन : +91 512 2371478-81, फैक्स : +91 512 2332665 ई-मेल : prabhat.mishra@jaykayenterprises.com वेबसाइट : www.jaykayenterprises.com

75वीं वार्षिक आम सभा की सूचना व ई—वोटिंग की जानकारी

एतदद्वारा यह सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियमए 2013 के साथ पठित उसके अंतर्गत बने नियमों व कारपोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) द्वारा जारी परिपत्रों दिनांक 8 अप्रैल, 2020, दिनांक 13 अप्रैल, 2020 दिनांक 5 मई, 2020 और दिनांक 13 जनवरी, 2021 के परिपत्र एवं सेबी के परिपत्र दिनांक मई 12, 2020 एवं 15 जनवरी 2021 ('परिपत्रों') के अनुपालन में कंपनी की 75वीं वार्षिक आम सभा ('AGM') एक स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, वीडियो कान्फ्रेन्सिंग ('VC') / अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स ('OAVM') के माध्यम से दिनांक 28 सितम्बर, 2021 दिन मंगलवार को अपरान्ह 12.00 बजे आयोजित की जायेगी जिसमें AGM के नोटिस में बताये जाने वाले व्यवसायों को पारित किया जाएगा।

उपरोक्त MCA एवं सेबी के परिपत्रों के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2020–21 की वार्षिक रिपोर्ट जिसमें नोटिस डायरेक्टर रिपोर्ट परिशिष्टियों सहित वित्तीय विवरण व स्वतंत्र ऑडिटर्स रिपोर्ट शामिल है के साथ AGM के नोटिस की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी कंपनी के उन सदस्यों को ई-मेल द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर पहले ही भेजी गयी है, जिनके ई–मेल पते डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ('DP') या कंपनी पास पंजीकृत हैं। उपरोक्त सभी दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.jaykayenterprises.com और सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड की बेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है।

कंपनी अपने उन सदस्यों को जो कि दिनांक 21 सितम्बर, 2021 दिन मंगलवार (कट ऑफ डेट) को फिजिकल या डीमैट फार्म में शेयर धारक है कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम 2014 के नियम 20 एवं सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंटस रेगुलेशन 2014 लिस्टिंग रेगुलेशन्स के रेगुलेशन 44 के अंतर्गत रिमोट ई—वोटिंग सुविधाए VC/OAVM के माध्यम से AGM में उपस्थित होने और भाग लेने की सुविधा और AGM के दौरान ई—वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान की सुविधा प्रदान करेगी। कोई भी व्यक्ति जो कट ऑफ डेट पर सदस्य नहीं है उसे तदनुसार AGM की सूचना को केवल सूचना के उद्देश्यों के लिये मानना चाहिए। सदस्यों के मतदान का अधिकार कट ऑफ डेट को कंपनी की प्रदत्त ईक्विटी शेयर पूँजी में उनके शेयर के अनुपात में होगा। कंपनी ने सदस्यों को ये सुविधाएं प्रदान करने के लिए CDSL की सेवाएं ली हैं।

रिमोट ई—वोटिंग शनिवार 25 सितम्बर 2021 को प्रातः 9:00 बजे से प्रारम्भ होकर सोमवार 27 सितम्बर 2021 को सायं 5:00 बजे समाप्त होगी, रिमोट ई-वोटिंग दी गई तारीख व समय के बाद उपलब्ध नहीं होगी। कंपनी ने श्रीमती रीना जखोदिया, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी (C.P. No. 6083) की नियुक्ति निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से

ई-वोटिंग प्रक्रिया / AGM के दौरान ई-वोटिंग की जांच करने के लिए स्क्रुटिनाइजर के रूप में की है। पहली बार ई-वोटिंग उपयोगकर्ता (व्यक्तिगत शेयरधारक के अलावा) के लिए यूनिक नंबर सहित ई-वोटिंग निर्देश और AGM में शामिल होने के निर्देश AGM के नोटिस में प्रदान किए गए हैं। VC/OAVM के माध्यम से AGM में शामिल होने वाले सदस्यों की उपस्थिति की गणना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम के उद्देश्य से की जाएगी। कृपया ध्यान दें कि AGM मे VC/OAVM के माध्यम से भाग लेने के लिए और AGM के दौरान प्रस्तावों पर ई—वोटिंग के लिए एक ही लॉगिन क्रेडेंशियल की आवश्यकता होती है।

जिन सदस्यों के ई–मेल पते DP या कंपनी / RTA के साथ पंजीकृत नहीं हैं, उनसे अनुरोध है कि लॉगिन क्रेडेंशियल प्राप्त करने के लिए वे नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए अपने ई—मेल पते पंजीकृत कराऐं:

- 1. फिजिकल शेयरधारकों के लिए: कुपया फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर सर्टिफिकेट (आगे और पीछे) की स्कैन कॉपी, पैन (पैन कॉर्ड की सेल्फ अटेस्टेड स्कैन कॉपी), आधार (आधार कॉर्ड की सेल्फ अटेस्टेड स्कैन कॉपी) जैसे आवश्यक विवरण कंपनी को prabhat.mishra@jaykayenterprises.com अथवा investorservices@jkcement.com पर ईमेल द्वारा प्रदान करें।
- 2. डीमैट शेयरधारकों के लिए : डीमैट शेयरधारकों के लिए: कृपया अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के साथ अपडेट करें ई-वोटिंग और VC/OAVM के माध्यम से वर्च्अल मीटिंग में शामिल होने के दौरान यह अनिवार्य है।

AGM के दौरान ई-वोटिंगकरने की सुविधा उन सदस्योंकोउपलब्ध कराई जायेगी जिन्होंने अपना मत रिमोट ई-वोटिंग द्वारा पहले नहीं डाला हो और वह AGM में उपस्थित है, ऐसे सदस्य जिन्होंने AGM से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मत डाल दिया हो, AGM में उपस्थित रह सकते हैं परन्तु AGM में पुनः मतदान करने के हकदार नहीं होंगे। इलेक्ट्रानिक माध्यम द्वारा वोटिंग सम्बंधित जानकारी/असुविधा के लिये सदस्य व बेनेफिशियल ओनर 'सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न ("FAQ") व ई—वोटिंग मैन्युअल www.evotingindia.com के हैल्प सेक्शन में देख सकते है या helpdesk.evoting@cdslindia.com को ई-मेल कर सकते है।

> बोर्ड की आज्ञानुसार हस्ता० / -(प्रभात कुमार मिश्रा) सी.एफ.ओ. एवं कंपनी सचिव मेम्बरशिप न0 एसीएस-29900



स्थानः कानपुर दिनांकः 04 सितम्बर 2021

Place: Gurugram

Date: September 04, 2021